

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 70] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 3, 1981/चैत्र 13, 1903

No. 70] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 3, 1981/CHAITRA 13, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं० 13-आई टी सी (पी एन)/81

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1981

निर्यात व्यापार नियंत्रण

विषय :—अप्रैल 1981—मार्च, 1982 के लिए आयात नीति

सं० आई पी सी/3/9/81—अप्रैल 1981—मार्च, 1982 के लिए आयात नीति इस सार्व-
जनिक सूचना के अनुबंध में निहित है।

2. निम्नलिखित श्रद्धियां आयात नीति में नीचे संकेतित उपयुक्त स्थानों पर की गई समझी जाएगी :—

क्रम सं०	1981-82 की आयात नीति की प्रवृत्त सं०	संशोधन	श्रद्धि
1	2	3	4
1.	106 परिशिष्ट 8, प्रविष्टि सं० 36		निम्नलिखित को वर्तमान विवरण के पहले जोड़ा जाएगा :— “पोलिएस्टर विलायेंट धागा बेस फ्लेट—प्रथम कोटि के (पूर्णतः/आंशिक रूप से अभिसुख), धीरे”
2.	211 परिशिष्ट 21, मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए खुला सामान्य लाइसेंस की प्रति		(1) इस आदेश सं० को 18/81 के रूप में पढ़ा जाएगा। (2) खुले सामान्य लाइसेंस को 18/81 के रूप में पढ़ा जाएगा।
3.	237 परिशिष्ट 29, [समुबन्ध—2, भाग—“ख” कठिका सं० (1)]		बीबी पंक्ति में वर्तमान आंकड़े “1.2” को “1.1” के रूप में पढ़ा जाएगा।

मणि नारायणस्वामी, मुख्य निर्यातक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

Public Notice No. 13-ITC (PN)/81

New Delhi, the 3rd April, 1981

IMPORT TRADE CONTROL

Subject : Import Policy for April 1981—March 1982.

F. No. IPC/3/9/81.— The Import Policy for April 1981—March 1982 is contained in the Annexure to this Public Notice.

2. The following errata shall be deemed to have been made in the Import Policy at the appropriate places indicated against each:—

Sl. No.	Page No. of Import Policy, 1981-82	Reference	Erratum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	106	Appendix 8, Entry No. 36.	The following shall be added before the existing description:— “Polyester filament yarn excluding base flat—first quality (fully/partially oriented), and”.
2.	211	Appendix 21, Copy of Open General Licence for Free Trade Zones.	(i) The Order No. shall be read as 18/81. (ii) Open General Licence No. shall be read as 18/81.
3.	237	Appendix 29, Annexure II, Part ‘B’ Paragraph No. (1).	In the fourth line, the existing figure “1.2” shall be read as “1.1”

MANI NARAYANSWAMI,
Chief Controller of Imports and Exports

